



पवन प्रवाह

सत्य का प्रवाह सतत प्रवाह

इक पंजीयन संख्या GPO LW/NP-106/2018-2020

पवन प्रवाह

www.pawanprawah.com
e-mail-pawanprawah@gmail.com

विविध प्रवाह

लखनऊ | सोमवार 14 से 20 जनवरी 2019

5



लेखक डॉ- भर्त शिंह

लखनऊ अंडर नीलगढ़ी साइट के गवाहोंदाक
एवं वैदिक विद्यालय के अध्यक्ष हैं।

विश्वभर में हिमयुग जैसी स्थिति बची-एक चिंतन


हम पूर्व के 5 (पाव) अंको में, अमरीकी डोनाल्ड ट्रम्प के अमेरिका में ग्लोबल-गर्भिंग पर दिये गये टिप्पणी व वैश्विक-तापमान की बढ़ोतारी तथा कैलिफोर्निया में जंगलों की आग पर छीकरा वैज्ञानिकों पर फोड़ने को पढ़ा। आइये आगे पढ़ते हैं कि विश्वभर में हिमयुग जैसी स्थिति क्यों है, क्या पर्यावरण असंतुलन के कारण विनाशकारी स्थिति पैदा हो रही है।

माग-06

गतांक से आगे

विश्व के तापमान देशों में भारी हिमपाता अपी पिछले कुछ दिनों से विश्व के तापमान देशों में भारी हिमपाता हो रहा है। यूरोप के पश्चिम देशों जैसे जर्मनी, स्विटजरलैंड, अस्ट्रिया आदि, स्वास्ति पर 5 जनवरी से 10 जनवरी 2019 तक 20 सेटीमीटर से 1 मीटर अधिक एक फीट से 3.5 फीट तक भारी बर्फबारी ने ऐसे देश के बर्फाने तुफानों के आगे लोगों ले लिया। यह तक कैलिफोर्निया के उत्तरी छोड़ी भी इस साल चढ़ाये में है। भारतवर्ष में पिछले कुछ माह से पहाड़ी इलाकों में तथा राशनस्थान के काढ़े इलाकों में भी भारी बर्फ पड़ी और कई जगह नापामन शून्य से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे चढ़ा गया। इस समय लगभग विश्व के अधिकांश भागों में जन-जीवन अस्त-अस्त हो गया है। आइये इस पर विचार करें कि क्या जलवायु हिमयुग की ओर दस्तक दे रही है या यह मात्र ग्लोबल गर्भिंग का कारण है।

हिमपात व चक्रवात आगे के मुख्य कारण मध्य अधिकांश के चक्रवात निम्न दबाव वाले थे जो वैकल्पिक बादलों और हल्के बर्फाने तुफानों से लेकर भारी बर्फानी तुफान के तुकड़े भी उत्तर के लोगों ले लिये होते हैं। किसी गोलांचल की नीचे पहुँचने से लोग होते हैं। भारी बर्फबारी के बैंड के क्या कारण हैं?



अल्पोकन से होये पता लगता है कि वर्तमान में ग्लोबल गर्भिंग की अवधारी को, हो रही भौति के कारणों से घप में, बहुत बड़ा-बड़ा कान पेश किया जाता है। भारी बर्फबारी के बैंड के क्या कारण हैं?

संयुक्त राज्य अमेरिका में कहीं भी बर्फ के क्षणों में बैंड हो सकते हैं। 20 नवंबर 2015 को संकरी बर्फबारी का एक उल्टू उल्टारण दृष्टिकोण-पूर्ण दीवान डकाता और उत्तरी अमेरिका में बर्फबारी के कारण पांच गज हुआ।

इंटरस्टेट 90 के उत्तर में अंतर्राज्यीय 90 के दृष्टिकोण से बर्फबारी में बैंड अतर (या बारी) को पुराना डिकॉड तोड़ दिया था, जब तापमान में गिराव शून्य से 19 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे आ गया थी। जब कि पिछला रिकॉर्ड, माइक्रोस (-)-10 डिग्री सेंटीग्रेड, 2014 में सेंट्रल या आगे आने वाले दिनों में शिकाये में बर्फ जारी होने की प्रवृत्ति संबंधित है। माइक्रोलैंड वैन ड्रें गेटन ने सूख किया कि - ग्लोबल गर्भिंग का कारण आपके बारी... ढंग पड़ती है।

वर्ष 2015 के संकायों में कहीं नाटकीय, रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी देखी गई। फरवरी की शुरुआत में 100 सूल एवं एक बार दो-बारी तुफानों ने फिल्मेंटल्क्या को कारण आपके बारी... ढंग पड़ती है।

वर्ष 2016 के संकायों में कहीं नाटकीय, रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी देखी गई। फरवरी की शुरुआत में 100 सूल एवं एक बार दो-बारी तुफानों ने फिल्मेंटल्क्या को कारण आपके बारी... ढंग पड़ती है।

वर्ष 2017 के संकायों में कहीं नाटकीय, रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी देखी गई। फरवरी की शुरुआत में 100 सूल एवं एक बार दो-बारी तुफानों ने फिल्मेंटल्क्या को कारण आपके बारी... ढंग पड़ती है।

वर्ष 2018 के संकायों में कहीं नाटकीय, रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी देखी गई। फरवरी की शुरुआत में 100 सूल एवं एक बार दो-बारी तुफानों ने फिल्मेंटल्क्या को कारण आपके बारी... ढंग पड़ती है।

वर्ष 2019 के संकायों में कहीं नाटकीय, रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी देखी गई। फरवरी की शुरुआत में 100 सूल एवं एक बार दो-बारी तुफानों ने फिल्मेंटल्क्या को कारण आपके बारी... ढंग पड़ती है।

वर्ष 2020 के संकायों में कहीं नाटकीय, रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी देखी गई। फरवरी की शुरुआत में 100 सूल एवं एक बार दो-बारी तुफानों ने फिल्मेंटल्क्या को कारण आपके बारी... ढंग पड़ती है।

वर्ष 2021 के संकायों में कहीं नाटकीय, रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी देखी गई। फरवरी की शुरुआत में 100 सूल एवं एक बार दो-बारी तुफानों ने फिल्मेंटल्क्या को कारण आपके बारी... ढंग पड़ती है।

वर्ष 2022 के संकायों में कहीं नाटकीय, रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी देखी गई। फरवरी की शुरुआत में 100 सूल एवं एक बार दो-बारी तुफानों ने फिल्मेंटल्क्या को कारण आपके बारी... ढंग पड़ती है।

वर्ष 2023 के संकायों में कहीं नाटकीय, रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी देखी गई। फरवरी की शुरुआत में 100 सूल एवं एक बार दो-बारी तुफानों ने फिल्मेंटल्क्या को कारण आपके बारी... ढंग पड़ती है।

यूरोप में तापमान में भारी कमी और मीषण हिमपात का वैज्ञानिक कारण

यूरोप पिछले 5 जनवरी 2019

से 1 अभी 11 जनवरी 2020 तक यूरोप के क्षणों में बैंड हो सकते हैं। 20 नवंबर 2015 को संकरी बर्फबारी का एक उल्टू उल्टारण दृष्टिकोण-पूर्ण दीवान डकाता और उत्तरी अमेरिका में बर्फबारी के कारण पांच गज हुआ।

इंटरस्टेट 90 के उत्तर में अंतर्राज्यीय 90 के दृष्टिकोण से बर्फबारी में बैंड हो सकते हैं। यूरोप के क्षणों में, दूसरी दृष्टिकोण के दृष्टिकोण में बर्फबारी के बैंड के कारण पांच गज हुए।

इंटरस्टेट 90 के उत्तर में अंतर्राज्यीय 90 के दृष्टिकोण से बर्फबारी में बैंड हो सकते हैं। यूरोप के क्षणों में, दूसरी दृष्टिकोण के दृष्टिकोण में बर्फबारी के बैंड के कारण पांच गज हुए।

इंटरस्टेट 90 के उत्तर में अंतर्राज्यीय 90 के दृष्टिकोण से बर्फबारी में बैंड हो सकते हैं। यूरोप के क्षणों में, दूसरी दृष्टिकोण के दृष्टिकोण में बर्फबारी के बैंड के कारण पांच गज हुए।

इंटरस्टेट 90 के उत्तर में अंतर्राज्यीय 90 के दृष्टिकोण से बर्फबारी में बैंड हो सकते हैं। यूरोप के क्षणों में, दूसरी दृष्टिकोण के दृष्टिकोण में बर्फबारी के बैंड के कारण पांच गज हुए।

इंटरस्टेट 90 के उत्तर में अंतर्राज्यीय 90 के दृष्टिकोण से बर्फबारी में बैंड हो सकते हैं। यूरोप के क्षणों में, दूसरी दृष्टिकोण के दृष्टिकोण में बर्फबारी के बैंड के कारण पांच गज हुए।

इंटरस्टेट 90 के उत्तर में अंतर्राज्यीय 90 के दृष्टिकोण से बर्फबारी में बैंड हो सकते हैं। यूरोप के क्षणों में, दूसरी दृष्टिकोण के दृष्टिकोण में बर्फबारी के बैंड के कारण पांच गज हुए।

इंटरस्टेट 90 के उत्तर में अंतर्राज्यीय 90 के दृष्टिकोण से बर्फबारी में बैंड हो सकते हैं। यूरोप के क्षणों में, दूसरी दृष्टिकोण के दृष्टिकोण में बर्फबारी के बैंड के कारण पांच गज हुए।

पहुँचा दिया था।

दि गर्जियन के अनुसार, भौमिक वर्फबारी के घेरे में हैं, जिसमें ग्लोबल वर्फबारी के अंत तक तापमान को सामान्य से गम्भीर तक बढ़ाव देता है।

उपरोक्त तत्वों से स्पष्ट हो रहा है कि इस घटना की विवरण के तापमान देशों में भारी बर्फबारी के बैंड के कारण कारण है।

डिग्री सेलिसियस तक पहुँच गया है, और रोम में घेरे में असामान्य तरफ से घब्बेदार स्थानों में भारी बर्फ की बैंड के फैली हुई हैं।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, वास्तव में कहीं भी और अन्य क्षणों में बैंड हो सकते हैं। यह अपार्टमेंट वालों के बैंड के कारण है।

गर्म हवाओं का विवरण के अंत तक तापमान (-) 15 नीचे ले जाने की विवरण घेरा है, और रोम में घेरे में असामान्य तरफ से घब्बेदार स्थानों में भारी बर्फ की बैंड के फैली हुई हैं।

इस घटना की विवरण के अंत तक तापमान (-) 8 डिग्री सेलिसियस (17.6 फारेनहाइट) के आसापास है।

ऐसा लगता है कि इस घटना की विवरण के अंत तक तापमान (-) 8 डिग्री सेलिसियस के आसापास है।

यह घटना विवरण के अंत तक तापमान (-) 8 डिग्री सेलिसियस के आसापास है।

यह घटना विवरण के अंत तक तापमान (-) 8 डिग्री सेलिसियस के आसापास है।

यह घटना विवरण के अंत तक तापमान (-) 8 डिग्री सेलिसियस के आसापास है।

यह घटना विवरण के अंत तक तापमान (-) 8 डिग्री सेलिसियस के आसापास है।

यह घटना विवरण के अंत तक तापमान (-) 8 डिग्री सेलिसियस के आसापास है।

यह घटना विवरण के अंत तक तापमान (-) 8 डिग्री सेलिसियस के आसापास है।

यह घटना विवरण के अंत तक तापमान (-) 8 डिग्री सेलिसियस के आसापास है।

यह घटना विवरण के अंत तक तापमान (-) 8 डिग्री सेलिसियस के आसापास है।

यह घटना विवरण के अंत तक तापमान (-) 8 डिग्री सेलिसियस के आसापास है।

यह घटना विवरण के अंत तक तापमान (-) 8 डिग्री सेलिसियस के आसापास है।

यह घटना विवरण के अंत तक तापमान (-) 8 डिग्री सेलिसियस के आसापास है।

यह घटना विवरण के अंत तक तापमान (-) 8 डिग्री सेलिसियस के आसापास है।

यह घटना विवरण के अंत तक तापमान (-) 8 डिग्री सेलिसियस के आसापास है।

यह घटना विवरण के अंत तक तापमान (-) 8 डिग्री सेलिसियस के आसापास है।

यह घटना विवरण के अंत तक तापमान (-) 8 डिग्री सेलिसियस के आसापास है।

यह घटना विवरण के अंत तक तापमान (-) 8 डिग्री सेलिसियस के आसापास है।

यह घटना विवरण के अंत तक तापमान (-) 8 डिग्री सेलिसियस के आसापास है।

यह घटना विवरण के अंत तक तापमान (-) 8 डिग्री सेलिसियस के आसापास है।

यह घटना विवरण के अंत तक तापमान (-) 8 डिग्री सेलिसियस के आसापास है।

यह घटना विवरण के अंत तक तापमान (-) 8 डिग्री सेलिसियस के आसापास है।

यह घटना विवरण के अंत तक तापमान (-) 8 डिग्री सेलिसियस के आसापास है।

यह घटना विवरण के अंत तक तापमान (-) 8 डिग्री सेलिसियस के आसापास है।

यह घटना विवरण के अंत तक तापमान (-) 8 डिग्री सेलिसियस के आसापास है।

यह घटना विवरण के अंत तक तापमान (-) 8 डिग्री सेलिसियस के आसापास है।

यह घटना विवरण के अंत तक तापमान (-) 8 डिग्री सेलिसियस के आसापास है।

यह घटना विवरण के अंत तक तापमान (-) 8 डिग्री सेलिसियस के आसापास है।

यह घटना विवरण के अंत तक तापमान (-) 8 डिग्री सेलिसियस के आसापास है।

यह घटना विवरण के अंत तक तापमान (-) 8 डिग्री सेलिसियस के आसापास है।

यह घटना विवरण के अंत तक तापमान (-) 8 डिग्री सेलिसियस के आसापास है।

यह घटना विवरण के अंत तक तापमान (-) 8 डिग्री सेलिसियस के आसापास है।

यह घटना विवरण के अंत तक तापमान (-) 8 डिग्री सेलिसियस के आसापास है।

यह घटना विवरण के अंत तक तापमान (-) 8 डिग्री सेलिसियस के आसापास है।

यह घटना विवरण के अंत तक तापमान (-) 8 डिग्री सेलिसियस के आसापास है।

यह घटना विवरण के अंत तक तापमान (-) 8 डिग्री सेलिसियस के आसापास है।